



Dated: August 19, 2023

To

Manager Listing Department/ Department of Corporate Relations BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400001 Scrip Code : 533344	General Manager National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra- Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400051 Scrip Symbol : PFS
---	--

Sub: Intimation of 17th Annual General Meeting (AGM), Record date and Dividend Payment and Submission of newspaper publication

Sir/Madam,

1. Annual General Meeting (“AGM”) of the Members of the Company

- This is to inform you that the 17th Annual General Meeting (“AGM”) of the Members of the Company will be held on Tuesday, September 12, 2023 at 11:00 AM through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means (“VC/OVAM”), in accordance with applicable circulars issued by MCA and SEBI.
- Soft copy of the Annual Report and Notice of the AGM shall be sent in electronic mode only to those Members of the Company whose email address is registered with the Company/RTA. The said Annual Report will also be made available on the website of the Company i.e. www.ptcfinancial.com and on the website of the stock exchanges.

2. Record Date and Dividend Distribution:

- Pursuant to Regulation 42 of the SEBI (LODR), Regulations, 2015, the Company has fixed Tuesday, September 05, 2023 as the Record Date for determining entitlement of Members to final dividend for the financial year ended March 31, 2023.
- The dividend, if declared at the AGM, will be paid within 30 days from the conclusion of the AGM.

Copy of newspaper advertisement in connection to the AGM is enclosed and the same is available at Company’s website at www.ptcfinancial.com.

PTC India Financial Services Ltd. (CIN: L65999DL2006PLC153373)

(A subsidiary of PTC India Limited)

Registered Office: 7th Floor, Telephone Exchange Building, 8 Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066, India

Board: +91 11 26737300 / 26737400 Fax: 26737373 / 26737374, Website: www.ptcfinancial.com, E-mail: info@ptcfinancial.com



Thanking You,

For PTC India Financial Services Limited

Shweta Agrawal
Company Secretary and Compliance Officer

Enclosed : as above

PTC India Financial Services Ltd. (CIN: L65999DL2006PLC153373)

(A subsidiary of PTC India Limited)

Registered Office: 7th Floor, Telephone Exchange Building, 8 Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066, India

Board: +91 11 26737300 / 26737400 Fax: 26737373 / 26737374, Website: www.ptcfinancial.com, E-mail: info@ptcfinancial.com

CARYSIL LTD.
(Formerly known as Acrysil Limited)
CIN: L26914MH1987PLC042283
Registered Office: A-702, 7th Floor, Kanakia Wall Street, Chakala Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai 400 093 (India)
Phone: 022 4190 2000; E-mail id: investors@carysil.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

For transfer of unpaid/unclaimed dividend and equity Shares of the Company to Investor Education & Protection Fund (IEPF) Account

This NOTICE is published pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 (The Act) read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) rules, 2016 (Rules), amongst other matters, contain provisions for transfer of unclaimed dividend to IEPF and transfer of shares in respect of which dividend remains unclaimed for seven consecutive years or more to IEPF Account. Companies are required to inform the shareholders at the latest available address whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority three months prior to the due date of transfer of shares and simultaneously publish the notice in the newspaper.

The Company will transfer its unpaid Final Dividend for 2015-16 to IEPF on or after November 26, 2023 accordingly the underlying Shares are due to be transferred to the Fund. The Company has sent the required communication in this behalf at the earliest possible under the current situation to those shareholders whose underlying shares are liable to be transferred to IEPF i.e for Final Dividend FY 2015-16, informing that the said underlying shares will be transferred to the DEMAT account of the IEPF Authority.

The complete details of the concerned shareholders whose dividends are unclaimed for seven consecutive years and whose shares are due to be transferred to IEPF are being uploaded on the website of the Company www.carysil.com.

We request the concerned shareholders to claim the unclaimed dividends, if any, remaining unpaid/unclaimed by you from the year 2015-16 onwards, by making an application immediately to the Company or the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s Bigshare Services Pvt. Ltd.

In case the dividends are not claimed by the concerned shareholders by November 26, 2023 necessary steps will be initiated by the Company to transfer the shares held by the concerned shareholder (s) to IEPF without further notice in the following manner:

- In case of shares held in demat mode – by transfer of shares directly to demat account of the Fund through the DP's of the Shareholder concerned;
 - In case of shares held in physical form – by issuance of new duplicate share certificate in lieu of the original certificate(s) and thereafter transferring the same to the Fund by converting into Demat through depository.
- The shareholder may note that in the event of transfer of shares and the unclaimed dividends to IEPF, concerned shareholder(s) are entitled to claim the same from IEPF by submitting an online application in the prescribed Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in and sending a physical copy of the same duly signed to the Company at its Registered Office along with requisite documents enumerated in Form IEPF-5.
- The Shareholders may further note that the details of unclaimed dividend and shares of the concerned shareholder (s) uploaded by the Company on its website www.carysil.com shall be treated as adequate notice in respect of issue of the new share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF rules. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend and equity shares transferred to IEPF.

In case the shareholders have any queries on the subject matter, they may contact M/s Bigshare Services Pvt. Ltd. Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai 400 093, Tel No. 91-022-6263 8200, Email – investor@bigshareonline.com Website – www.bigshareonline.com.

For Carysil Limited
Sd/-
August 18, 2023
Reena Shah
Company Secretary

MCX
METAL & ENERGY
Trade with Trust

Multi Commodity Exchange of India Limited
Exchange Square, CTS No. 255, Suren Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai – 400 093.
CIN: L51909MH2002PLC135594, E-mail: info@mcxindia.com, www.mcxindia.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to expulsion of RDQ Stock Broking Private Limited by the National Stock Exchange of India Limited (NSEIL), RDQ Stock Broking Private Limited stands expelled from the membership at Multi Commodity Exchange of India Limited (Exchange) in terms of Circular No. F. No. 1/26/SE/91 dated August 12, 1991 issued by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Government of India, with effect from August 11, 2023. Details of the Expelled Member are as follows:

Member Name	Membership ID	SEBI Registration Number	Registered & Correspondence office address
RDQ Stock Broking Private Limited (PAN: AAACR0480J)	56920	INZ000297131	Advntz Infinity@5, Plot No 5, BN Block, South Wing, 7th Floor, Unit No - 701, Salt Lake Sector - V, Kolkata – 700091, West Bengal

The constituent(s) of the above mentioned Expelled Member are advised to lodge their claims, if any, (in the prescribed claim form) within 90 days (specified period) from the date of this notification, failing which, it shall be deemed that no claims exist against the above mentioned Expelled Member and such claims, if any, shall be deemed to have been waived. The claims filed against above Expelled Member shall be dealt in accordance with the Rules, Bye-laws and Business Rules, procedures of the Exchange and applicable provisions of Exchange's Investor Protection Fund Trust.

The maximum compensation limit per investor, if found due and payable out of Investor Protection Fund under the Rules, Bye-laws and Business Rules of the Exchange is Rs.25 lakhs per client.

The constituent(s) may forward the duly filled claim form along with relevant documents as stated therein to Defaulters' Section of the Exchange at Multi Commodity Exchange of India Limited, Exchange Square, CTS 255, Suren Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai -400093 or email at - default@mcxindia.com. Claim form for filing claims can be downloaded from the Exchange website: www.mcxindia.com/Investor Services.

Place: Mumbai, Date: August 19, 2023
For Multi Commodity Exchange of India Ltd.
Sd/-
Authorised Signatory

emami* paper mills limited
CIN - L21019WB1981PLC034161
Registered Office: 687, Anandapur, 1st Floor, E.M Bypass, Kolkata - 700107, Phone No. 033 6613 6264, Website: www.emami.com, Email: investor.relations@emamipaper.com

NOTICE FOR THE ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

41st ANNUAL GENERAL MEETING (41st AGM/AGM) RECORD DATE FOR DIVIDEND AND INFORMATION ON REMOTE E-VOTING/E-VOTING

Notice is hereby given that the Forty-first Annual General Meeting of the Company (41st AGM/AGM) will be held on Tuesday, 12th September 2023 at 11.00 A.M through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility as per the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules framed thereunder and the Regulations under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13th April 2020, General Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020, General Circular No. 02/2021 dated 13th January 2021, General Circular No. 21/2021 dated 14th December 2021, General Circular No. 02/2022 dated 5th May 2022 and General Circular No. 10/2022 dated 28th December 2022 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("collectively referred to as MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CIR/P/2021/11 dated 15th January 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 respectively issued by the Securities and Exchange Board of India ("collectively referred to as SEBI Circulars") and the applicable regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR"). The 41st AGM of the Company is being conducted through VC/OAVM facility without the presence of Members. The Registered Office of the Company shall be deemed to be the venue for the AGM.

In terms of the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2022-23 including the Audited Financial Statements for the year ended 31st March 2023 ("Annual Report") were sent on Friday, 18th August 2023, only through electronic means to those Shareholders whose names appear on the Register of Members / List of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited ("NSDL") / Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as at the close of business hours on Friday, 11th August, 2023 and who have registered their email address(es) with the Company/RTA/Depositories. The requirements of sending a physical copy of the Notice of AGM and Annual Report have been dispensed with vide the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars. The aforesaid documents are also available on the website of the Company at www.emamipaper.in and the website at BSE Limited at www.bseindia.com and that of NSE Limited at www.nseindia.com, respectively. The Notice of the 41st AGM is also available on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically for inspection without any fee by the Shareholders from the date of circulation of the Notice of AGM up to the date of AGM and will also be available for inspection during the AGM. Shareholders seeking to inspect such documents can send an email to investor.relations@emamipaper.com.

The Company has fixed Tuesday, 5th September, 2023 as the "Record Date" for determining entitlement of Shareholders for receiving Dividend for the year ended 31st March 2023 if approved by the Members at the AGM. The dividend will be paid within the statutory limit of 30 days to those Members whose names appear on the Company's Register of Members as on the record date through electronic/other modes as applicable.

In compliance with Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI LODR, shareholders holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Tuesday, 5th September, 2023 may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the AGM through the electronic voting system ("remote e-Voting") of Central Depository Services (India) Limited. All shareholders are informed that:

- The Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the AGM will be transacted through voting by electronic means;
- The cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-Voting or e-Voting system during the AGM is Tuesday, 5th September 2023;
- The remote e-voting shall commence on Saturday, 9th September 2023 at 10.00 a.m. (IST) and ends on Monday, 11th September 2023 at 05.00 p.m. (IST);
- Any person, who becomes a shareholder of the Company after dispatch of the Notice of the AGM through email and holding shares as on the cut-off date i.e., Tuesday, 5th September, 2023 may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdsl.com. However, if the person is already registered with CDSL for remote e-Voting then the existing user id and password can be used for casting vote.
- Shareholders may note that a) the remote e-Voting module shall be disabled by CDSL beyond 05.00 p.m. on Monday, 11th September 2023 and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; b) Shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM date may participate in the AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-Voting system during the AGM; c) Shareholders participating in the AGM and who had not cast their vote by remote e-Voting, shall be entitled to cast their vote through e-Voting system during the AGM; and d) a person whose name is recorded in the Register of Shareholders or the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting and e-Voting during the AGM.

The full instructions for Shareholders for e-Voting and joining the AGM through VC/OAVM for e-voting are given in the Notice of the AGM. Shareholders are requested to kindly follow the given instructions.

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section www.evotingindia.com or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll-free on 1800225533.

Those Shareholders holding shares in physical form are requested to register/update their email address and also to update their Bank Account details for receipt of a dividend as prescribed in from ISR- 1 with Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd ("RTA"). Norms for updation of the same are available on the website of the RTA at www.mrpj.in and also at the website of the Company at www.emamipaper.in. Shareholders holding shares in Demat form can update their email address, Bank Account details with the respective Depository Participant.

The Register of Members and Share Transfer Book of the Company shall remain close from Wednesday, 6th September 2023 to Tuesday, 12th September 2023 (both days inclusive) for AGM and dividend.

In case of any grievances regarding the e-voting facility, shareholders are requested to contact Mr. Rakesh Dalvi, S. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll-free on 1800225533.

By Order of the Board
For Emami Paper Mills Limited

Place: Kolkata, Date: 18th August, 2023
Debendra Banthiya
Company Secretary
M.No. F-7790

CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS LIMITED
(CIN: L24124RJ1985PLC003293)
Registered Office: Gadepan, District Kota, Rajasthan, PIN - 325 208
Telephone No.: +91-744-2782915; Fax No.: +91-7455-274130
Corporate Office: "Corporate One", First Floor, 5, Commercial Centre, Jasola, New Delhi-110 025
Telephone Nos.: +91-11-46581300, 41697900; Fax No.: +91-11-40638679
E-mail: isc@chambal.in; Website: www.chambalfertilisers.com

NOTICE OF THE THIRTY EIGHTH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Thirty Eighth Annual General Meeting ("AGM") of the members of Chambal Fertilisers and Chemicals Limited ("the Company") will be held at 10.30 A.M. Indian Standard Time ("IST") on Tuesday, September 12, 2023, through video conferencing ("VC") / other audio visual means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 read with General Circular No. 2/2022 dated May 05, 2022, General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars"), the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India (hereinafter collectively referred to as "SEBI Circulars"), to transact the business as set out in the notice of AGM.

In pursuance of the MCA Circulars and SEBI Circulars, notice of AGM dated August 08, 2023 and the Annual Report of the Company for the Financial Year 2022-23 ("Annual Report 2022-23") have been sent electronically through email on Friday, August 18, 2023, to those members whose e-mail addresses are registered with the Company or the depositories/ depository participants. These documents are also available on the website of the Company at www.chambalfertilisers.com, the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdli.com.

The Company is providing to its members a facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the AGM through voting by electronic means ("e-Voting") and the business set out in the notice of AGM may be transacted through e-Voting. The Company has engaged NSDL to provide the facility of remote e-Voting to the members and the facility of e-Voting to the members participating in the AGM through VC/OAVM. The process and manner of remote e-Voting, attending AGM through VC/OAVM and e-Voting at AGM, for members holding shares in demat form or physical form and for members who have not registered their email address, have been provided in the notice of AGM.

We further inform that:

- Remote e-Voting shall commence at 09.00 A.M. IST on Friday, September 08, 2023.
- Remote e-Voting shall end at 05.00 P.M. IST on Monday, September 11, 2023 and remote e-Voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- The cut-off date for determining the eligibility for remote e-Voting and voting at AGM through e-Voting system is September 05, 2023. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories (in case of shares held in dematerialised form) as on the cut-off date i.e. September 05, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as voting in the AGM through e-Voting system.
- Any person who acquires shares and becomes a member of the Company after the dispatch of the notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. September 05, 2023, may obtain the User ID and password by sending a request through email at evoting@nsdl.co.in or isc@chambal.in. However, if such member is already registered for e-Voting then such member may follow the process and manner of remote e-Voting, attending AGM through VC / OAVM and e-Voting at AGM given in notice of AGM.
- The facility of e-Voting shall also be made available to the members participating in the AGM through VC / OAVM and the members, who have not cast their vote through remote e-Voting, shall be allowed to vote through e-Voting in the AGM.
- A member may attend / participate in the AGM through VC / OAVM even after exercising his / her right to vote through remote e-Voting but shall not be allowed to vote again in the AGM.
- In case of any queries/ grievances connected with remote e-Voting or the e-Voting in the AGM or if the members need any assistance before or during the AGM, the members may contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, "A" Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 at the designated email IDs: evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in (call at 022 - 48867000 and 022 - 24997000) or Mr. Shyamal Kumar Choudhury, Deputy Manager - Secretarial of the Company at the designated email ID: isc@chambal.in at the address and telephone numbers of the Corporate Office of the Company given above.

The members may register / update their email address, by following the procedure mentioned below:

- For the members holding shares in physical form:** Please send duly completed Form ISR-1 along with requisite documents, at the Corporate Office of the Company at "Corporate One", First Floor, 5, Commercial Centre, Jasola, New Delhi - 110 025 or to the Share Transfer Agent of the Company i.e. M/s. Zuari Finserv Limited, Plot No.-2, Zamrudpur Community Centre, Kailash Colony Extension, New Delhi - 110 048. Form ISR-1 is available on the website of the Company at www.chambalfertilisers.com.
- For the members holding shares in demat form:** Please register/ update your email address through your depository participant.

Place: New Delhi, Date: August 18, 2023
For Chambal Fertilisers and Chemicals Limited
Anuj Jain
Assistant Vice President - Finance & Company Secretary

दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमि.
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालय : पर्यावास भवन, ब्लॉक नं.-1 (ए), द्वितीय तल, जेल रोड, अंभेरा हिल्स, भोपाल, दूरभाष : 2763391
फैक्स : 0755-2763394, E-mail : info.mpsmc@mp.gov.in,
Website : www.mpsmc.mp.gov.in
CIN : U01410MP1962SGC000937

कैविएट नोटिस

कैविएटकर्ता/संभावित उत्तरवादी-म.प्र. राज्य खनिज निगम लिमि. भोपाल संभावित याचिकाकर्ता - आम जनता/व्यापारिक संस्था

उपरोक्त कैविएटकर्ता द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम भोपाल की सूचना क्रमांक-रेत/निविदा/2023/432 दिनांक 11.08.2023 के माध्यम से 'रेत खनिज की ई-निविदा सह नीलामी (E-Tender cum auction) के पूर्व रेत समूहों में सम्मिलित खदानों का विवरण' संबंधी सूचना समारक पत्रों में प्रकाशित करवाई गई थी। उपरोक्त सूचना के प्रयोजनों के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति या व्यापारिक संस्था, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली एवं सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल में याचिका दायर करता है, तो याचिका की प्रति मय दस्तावेजों सहित निगम के अधिकृत अधिवक्ता श्री ओम शंकर श्रीवास्तव अधिवक्ता के पते- ओमस्ला हाउस, आर 52, शिवलोक परिसर, जोन-II, एम.पी. नगर, भोपाल-462011 (ई-मेल - omslawhouse1@gmail.com) पर अग्रिम रूप से प्रदान करें, ताकि माननीय न्यायालय में कैविएटकर्ता का भी पक्ष रख जा सके।

म.प्र. राज्य खनिज निगम लिमि.
भोपाल (म.प्र.)

म.प्र. माध्यम/11508/2023

TENNECO TENNECO CLEAN AIR INDIA PRIVATE LIMITED
CIN: U29308TN2018FTC126510 Telephone: +91 2135 612501/506

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL BENCH AT CHENNAI
IA No. 39 of 2023 IN CP/88(CHE)/2022

In the matter of Section 66 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the National Company Law Tribunal (Procedure for reduction of share capital of Company) Rules, 2016 And In the matter of Tenneco Clean Air India Private Limited,

Tenneco Clean Air India Private Limited,
A company registered under the Companies Act, 1956, and having its Registered Office at RNS2, Nissan Supplier Park, SIPCOT Industrial Park Oragadam Industrial Corridor, Sriperumdhur Taluk Kancheepuram, Kancheepuram, Tamil Nadu - 635126, India

..... Petitioner Company

PUBLICATION OF NOTICE

Notice may be taken that a petition (CP/88(CHE)/2022) sought the approval of the National Company Law Tribunal, Division Bench -II Chennai for the reduction of capital which was ordered by the National Company Law Tribunal, Division Bench -II Chennai on 1st February 2023. Under the order reduction, the Petitioner Company proposed to reduce Rs.119,18,07,492/- and utilization proposed was Rs.70,43,07,492/- towards the Negative Capital Reserves and Rs.48,75,00,000/- towards the return of capital to the shareholders of the Petitioner.

The Petitioner Company has now approached the National Company Law Tribunal, Division Bench -II Chennai by filing IA 39 of 2021 for the purposes of changing the proposed utilization of amounts to Rs.34,21,88,743/- towards the Negative Capital Reserves and Rs.84,96,38,749/- towards the return of capital to the shareholders of the Petitioner.

The notices to individual creditors have been issued. The list of creditors prepared on the 31st day of July 2023 by the company is available at the registered office of the company for inspection on all working days during 11 AM to 4 PM between 19th day of August 2023 to 1st day of September 2023.

If any creditor of the company has any objection to the petition or the details in the list of creditors, the same may be sent (alongwith supporting documents) and details about his name and address and the name and address of his authorized representative, if any, to Shri. N.K. Bhansali, Practicing Company Secretary, having office at " CRESCENT COURT", Suite No 15, 963/15, Ponamalai High Road, 3rd Floor., Chennai- 600 084, Email: bhansalifcs@gmail.com Phone: 98400 84744 or the undersigned at RNS2, Nissan Supplier Park, SIPCOT Industrial Park Oragadam Industrial Corridor, Sriperumdhur Taluk Kancheepuram District, Kancheepuram, Tamil Nadu - 602105, India, or at Plot No. G6-phase III, Chakan MIDC Pune 410501 Maharashtra.

If no objection is received entries in the list of creditors will, in all the proceedings under the above petition to reduce the share capital of the company, be treated as correct.

It may also be noted that a hearing has been fixed for September 06, 2023, on which the Tribunal shall hear the application. In case any creditor intends to attend the hearing, he should make a request along with his objections, if any.

For Tenneco Clean Air India Private Limited.
Nadella Phani Kishor Rao - Director - DIN: 08871799

PTC India Financial Services Limited
PFC India Financial Services Limited

17th ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") OF PTC INDIA FINANCIAL SERVICES LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS

- Notice is hereby given that the 17th Annual General Meeting ("AGM") of PTC India Financial Services Limited (the "Company") is scheduled to be held on Tuesday, the 12th September, 2023 at 11:00 A.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with General Circular Nos. 14/2020 dated the 8th April, 2020, 17/2020 dated the 13th April, 2020, 20/2020 dated the 5th May, 2020, 02/2021 dated the 13th January, 2021, 02/2022 dated the 05th May, 2022, and 11/2022 dated the 28th December, 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars"), SEBI circular dated the 05th January, 2023 and applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and the rules made there under and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 ("SEBI Listing Regulation"), to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the AGM.
- In Compliance with the above MCA Circulars, The electronic copies of the AGM Notice along with the Annual Report for Financial Year 2022-2023 will be sent to all the shareholders, whose email addresses are registered / available with the Company/ Depository Participants.
- Members who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses and mobile numbers with their respective Depositories through Depository Participants.
- The Notice of the AGM and the Annual Report will also be made available on the Company's website at www.ptcfincial.com/cms/showpage/page/annual-reports and also on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.
- Members are requested to update their KYC in their folio(s), register their email addresses, and bank account details for receipt of dividend etc. or may intimate any changes if required. The process of registering/changing the same is mentioned below:

In case, Physical Holding Register/update the details in prescribed Form ISR-1 and other relevant forms with Company's Share Transfer Agent i.e. **KFIN TECHNOLOGIES LIMITED** Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, 500 032. Tel: 040-67162222, Fax: 040-23001153 E-mail: einward.ris@kfinetech.com Website: www.kfinetech.com

The said forms and relevant provisions of SEBI circular (Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-11/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023, as amended) are available on the Company's website at the link www.ptcfincial.com. In the absence of any of the required documents in a folio, on or after October 1, 2023, the folio shall be frozen by the RTA. Intimation letters along with Business Reply Envelopes for furnishing the required details are being sent by the Company.

In case, Demat Holding Please contact your DP and register email address and bank account details in your demat account, as per the process advised by your DP.

Members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addresses are not registered with the Company/their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest for receiving the investor communications including Annual Report 2022-23 along with AGM Notice, by following the process referred above.

For temporary registration of email for the purpose of receiving of AGM Notice along with annual report for 2022-23, members may write to info@ptcfincial.com.

- The remote e-voting period commences on Saturday, September 09, 2023 (09.00 A.M.) and ends on Monday, September 11, 2023 (05.00 P.M.). The members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 05, 2023 may cast their vote by remote e-Voting or by e-voting at the time of AGM. Members who have not cast their votes by remote e-voting will be able to vote at AGM through e-voting.
- Members will have the opportunity to cast their vote electronically on the business as set out in the AGM Notice through remote e-voting or e-voting to be conducted at the AGM. For the Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories, login details for e-voting and attending AGM would be sent to their registered email addresses. Members whose credentials are not registered with the Company/ Depositories, the detailed procedure for voting and attending AGM will be provided in AGM Notice, which will also be available on Company's website www.ptcfincial.com/cms/showpage/page/annual-reports. The Members are requested to visit the Website.

- For Individual Members holding shares in electronic form with Depositories viz. NSDL and CDSL should login through the sites of NSDL and CDSL to cast the votes during the remote e-voting period. However, for VC / OAVM meeting all the Members should login at <https://evoting.kfinetech.com> to participate in the meeting and also to cast vote in case they have not voted during the remote e-voting period.
- The Board has recommended a final dividend of Rs. 1.00/- per equity share of Rs. 10/- each fully paid up and record date for the same is September 05, 2023.

इंडियन बैंक Indian Bank
 ALAHABAD
 इंडियन बैंक अन्तर्गत कार्यालय देहरादून द्वारा सार्वत " जैसा है " आधार पर विक्रय हेतु वैध उपलब्ध है, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा जीनिओ डीजल मॉडल है। अंतिम तिथि **01.09.2023** है। अधिक जानकारी हेतु कृपया हमारा वेबसाइट www.indianbank.in/tenders/ko देखें।
 तिनांक: 18.08.2023 अंतिम कार्यालय स्थान: देहरादून

सार्वजनिक सूचना
 आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, हमारे क्लाइंट मैसर्स म्यूट फार्मिगान्स लि. द्वारा **17th, 18th, 23rd, 24th & 25th August 2023** को (बंदक आरक्षणों की-पनापी खाती) आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है और अब **20th, 21st, 22nd & 23rd September 2023** को सार्वजनिक नीलामी पुन: निर्धारित की गई है। सार्वजनिक नीलामी का स्थान एवं समय वही रहेगा जो कि पहले ही संबंधित कर्जदारों को अधिसूचित किया जा चुका है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक व्यक्ति हमारे क्लाइंट की संबंधित शाखा में सम्पर्क कर सकते हैं।
ध्यान दें: नकली/कम शुद्धता वाले आरूपणों की नीलामी अनुसूची में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
कोहली एण्ड सोबी एडवोकेट्स
ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-III, नई दिल्ली - 110024
 नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने निरपेक्ष रूप में पुछा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: recoverynorth@mulhoolgroup.com या [7834886464](tel:7834886464), [7994452461](tel:7994452461) पर कॉल करके सम्पर्क कर सकते हैं।

सार्वजनिक सूचना
 आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, हमारे क्लाइंट मैसर्स म्यूट फार्मिगान्स लि. द्वारा **17th, 18th & 19th August 2023** को (बंदक आरक्षणों की-पनापी खाती) आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है और अब **21st, 22nd & 23rd September 2023** को सार्वजनिक नीलामी पुन: निर्धारित की गई है। सार्वजनिक नीलामी का स्थान एवं समय वही रहेगा जो कि पहले ही संबंधित कर्जदारों को अधिसूचित किया जा चुका है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक व्यक्ति हमारे क्लाइंट की संबंधित शाखा में सम्पर्क कर सकते हैं।
ध्यान दें: नकली/कम शुद्धता वाले आरूपणों की नीलामी अनुसूची में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
कोहली एण्ड सोबी एडवोकेट्स
ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-III, नई दिल्ली - 110024
 नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने निरपेक्ष रूप में पुछा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: recoverynorth@mulhoolgroup.com या [7834886464](tel:7834886464), [7994452461](tel:7994452461) पर कॉल करके सम्पर्क कर सकते हैं।

कार्यालय वसूली अधिकारी-I
ऋण वसूली अधिकारण-II, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
बिक्री उद्घोषणा
आर.सी. सं. 353/2014
एवेक रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वनाम मैसर्स कूटन्स रिटैल्स इंडिया लिमिटेड और अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा
सोडी#1 मैसर्स कूटन्स रिटैल्स इंडिया लिमिटेड, दिल्ली उच्च न्यायालय से जुड़े आधिकारिक परिसमापक के माध्यम से। दिल्ली उच्च न्यायालय से संबद्ध आधिकारिक परिसमापक का कार्यालय, कॉम्प्लैट कार्य मंत्रालय, ए-विंग, 8वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान माफेट, नई दिल्ली-03
सोडी#2 श्री मृण्दिव सिंह साहनी, ए-41, राजवुड सिटी, सेक्टर-49, गुडगांव -122002
सोडी#3 श्री गुरुमति सिंह साहनी, ए-39, राजवुड सिटी, सेक्टर-49, गुडगांव-122002
सोडी#4 श्री डी.पी.एस. कोहली, ए-23, राजवुड सिटी, सेक्टर-49 गुडगांव-122002

कच्चा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
जब कि,
इंडियाबुल्स हार्जिसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922D2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनॉशियल असेट्स एंड एम्प्लॉयेड ऑफ सिक्योरिटी इंस्ट्रुमेंट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के प्रावधान प्रावधान 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंस्ट्रुमेंट (एम्प्लॉयेड) रूल्स, 2002 के साथ पहले हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **मैसर्स नारायण भंडारी प्रोप्राइटर भंडारी दूर एंड ट्रेडिंग्स और कृष्णा देवी को 28.09.2021** को सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खता नं., **HLDMT00335178** की राशि रु. **23,83,527.07** (रुपये **तेईस लाख तिरासी हजार पाँच सौ सत्ताईस और सात पैसे मात्र**) और **27.09.2021** के अनुसार उस पर ब्याज उभर सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आहवाल करते हुए अधिभावना सूचना जारी की थी।
 धराराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंस्ट्रुमेंट (एम्प्लॉयेड) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **16.08.2023** को संपत्ति पर अधिपत्य कर लिया है।
विशेषतः: कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रु. **23,83,527.07** (रुपये **तेईस लाख तिरासी हजार पाँच सौ सत्ताईस और सात पैसे मात्र**) **27.09.2021** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हार्जिसिंग फायनान्स लिमिटेड के अधीन होगा।
 उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

हीरो फिनकोर्पो लिमिटेड
 नवीआर, ए-74899DL1991PLC046774
 पंजीकृत कार्यालय :- 34, इन्फ्यूजिटी रोड, सत्यम लोक, सत्यम नगर, नई दिल्ली-110057
 दूरभाष : 011-49487150 फैक्स : 011-49487150 ई-मेल : litigation@herofincorp.com
 वेबसाइट : www.herofincorp.com

“परिष्कृत-IV-ए” [नियम 8(6) के प्रावधान देखें] अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना
प्रतिभूत हित (प्रयत्न) : नियम, 2002 के नियम 8(6) के परतुलक के साथ पठित वित्तीय परिपत्रमापक के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्वहन तथा प्रतिभूत हित प्रयत्न अधिनियम, 2002 के सन्दर्भ में अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा जनसाधन को तथा विशेष रूप से कर्जदार (सँ) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार (हीरो फिनकोर्पो लिमिटेड) के पास बचक/प्रावृति नीचे सूचित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कच्चा प्रतिभूत लेनदार (हीरो फिनकोर्पो लिमिटेड) के अधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, कर्जदार से प्रतिभूत लेनदार के नीचे वर्णित राशि के बकाये की वसूली के लिए निम्नलिखित तिथि पर **“जैसा है जहाँ है जहाँ है आधार”** एवं **“जो भी वहाँ है आधार”** एवं **“जैसा है जो है आधार”** एवं **“उपचार रहित आधार”** पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य नीचे उल्लिखित है और जमा की जाने वाली धरोहर राशि क्रमशः उल्लिखित है।

कर्जदार (सँ)/उत्पन्नकर्ता (की) का नाम तथा पता	नीलामी के तहत करके प्रारम्भिक का पता	आरक्षित मूल्य (आपूर्ति) ₹.
1. मैसर्स विनॉयट टेक्नोलॉजीज, कार्यालय: सी-3/4, दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 4, जनक पुरी, दिल्ली -110058; साथ ही: एचआईटी, प्लॉट नंबर 216, चौथी मंजिल, सेक्टर-18बी, बटुगंजिया ब्लॉक, हरियाणा, नई दिल्ली-110078	उन के अधिकार के बिना वेपॉजिट फ्लोर और संपत्ति छन के अधिकार के बिना दूसरी मंजिल नं. एक-9, क्षेत्रक 324 का मीटर, विकास पुरी, नई दिल्ली में स्थित है। सीमाएं: उत्तर: प्लॉट नंबर 10 और 11, पूर्व: प्लॉट नंबर 8, दक्षिण: वडक 13.5 मीटर, पश्चिम: प्लॉट नंबर 8	2,93,00,000/-
2. मैसर्स विनॉयट एडवोकेट्स प्राइवेट लिमिटेड, कार्यालय सी-3/4, दूसरी मंजिल, प्लॉट नं. 4, जनक पुरी, दिल्ली - 110058 और एचआईटी, प्लॉट नं. 216, चौथी मंजिल, सेक्टर-18बी, बटुगंजिया ब्लॉक, हरियाणा, नई दिल्ली -110078	उन के अधिकार के बिना वेपॉजिट फ्लोर और संपत्ति छन के अधिकार के बिना दूसरी मंजिल नं. एक-9, क्षेत्रक 324 का मीटर, विकास पुरी, नई दिल्ली में स्थित है। सीमाएं: उत्तर: प्लॉट नंबर 10 और 11, पूर्व: प्लॉट नंबर 8, दक्षिण: वडक 13.5 मीटर, पश्चिम: प्लॉट नंबर 8	10% ईएमपीडी
3. मैसर्स विनॉयट एडवोकेट्स प्राइवेट लिमिटेड, कार्यालय सी-3/4, दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 4, जनक पुरी, दिल्ली -110058, निवासी: सी-10, जैती मोनका क्लब, प्लॉट -3, सेक्टर -4, द्वारा, नई दिल्ली -110077 और एचआईटी, प्लॉट नंबर 216, चौथी मंजिल, सेक्टर -18 बी, बटुगंजिया ब्लॉक, हरियाणा, नई दिल्ली -110078	उन के अधिकार के बिना वेपॉजिट फ्लोर और संपत्ति छन के अधिकार के बिना दूसरी मंजिल नं. एक-9, क्षेत्रक 324 का मीटर, विकास पुरी, नई दिल्ली में स्थित है। सीमाएं: उत्तर: प्लॉट नंबर 8, दक्षिण: वडक 13.5 मीटर, पश्चिम: प्लॉट नंबर 8	₹. 29,30,00,000/-
4. श्री कमलेश कुमार, निवासी: एचआईटी, प्लॉट नंबर 216, चौथी मंजिल, सेक्टर-18बी, बटुगंजिया ब्लॉक, हरियाणा, नई दिल्ली -110078।	उन के अधिकार के बिना वेपॉजिट फ्लोर और संपत्ति छन के अधिकार के बिना दूसरी मंजिल नं. एक-9, क्षेत्रक 324 का मीटर, विकास पुरी, नई दिल्ली में स्थित है। सीमाएं: उत्तर: प्लॉट नंबर 8, दक्षिण: वडक 13.5 मीटर, पश्चिम: प्लॉट नंबर 8	वृद्धि राशि
5. श्रीमती नीतु कुमार, निवासी: एचआईटी, प्लॉट नंबर 216, 4थी मंजिल, सेक्टर-18बी, बटुगंजिया ब्लॉक, हरियाणा, नई दिल्ली -110078।	उन के अधिकार के बिना वेपॉजिट फ्लोर और संपत्ति छन के अधिकार के बिना दूसरी मंजिल नं. एक-9, क्षेत्रक 324 का मीटर, विकास पुरी, नई दिल्ली में स्थित है। सीमाएं: उत्तर: प्लॉट नंबर 8, दक्षिण: वडक 13.5 मीटर, पश्चिम: प्लॉट नंबर 8	₹. 1,00,00,000/-

उस वसूली के बकाये या बिक्री के लिए संपत्ति केबल जा रहे हैं। अधिकृत प्राधिकारी के नाम सौदा वित्तिय के अनि-साइट निष्काशन की स्थिति/समय ईएमपीडी, भारीवर्ती के विवेक पाठ, केवलसी, सत्याम, निज कानू, ईएमपीडी के प्रमाण और उक्त करने की अनिवार्य तिथि

09.12.2022 तक बकाया 05.09.2023, 10.00 बजे पूर्ण से 5.00 बजे अपर। अधिकृत प्राधिकारी: श्री संजीव कुमार मोहवाल: 9999300998 ई-मेल: sanjev.kumar2@herofincorp.com आप की सेवा प्रति से मोहवाल नं. 964348884 ई-मेल: Ramesh.giri@herofincorp.com से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

इच्छुक क्रेताओं/संबिदाकारों को ईएमपीडी राशि या तो आर्टिडोइएस/एनईएफटी के माध्यम से या डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर द्वारा खता सं. 30310016156, सामांय का नाम : "हीरो फिनकोर्पो लिमिटेड", आईएफएससी कोड : HDFC0000003 में जमा करनी होगी।

अचल संपत्ति का विवरण
प्लॉट नंबर 86-बी, एएएएफ (पिप्ला भाग/उत्तरी भाग), ब्लॉक-बी, सेक्टर-11, डीएलएफ, फरीदाबाद, हरियाणा- 121006.

सही/- प्राधिकृत अधिकारी स्थान : फरीदाबाद इंडियाबुल्स हार्जिसिंग फायनान्स लिमिटेड

अधिपत्य सूचना
 जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **जना स्पॉल फाइनंस बैंक लिमिटेड** (पूर्व में जनलामी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड) को रूप में विवरण के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तिय परिपत्रमापक के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्वहन तथा प्रतिभूत हित प्रयत्न अधिनियम 2002 के अंतर्गत और अधिसूचित हित (प्रयत्न) अधिनियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित और सिक्योरिटी इंस्ट्रुमेंट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत प्रयत्न अधिकारों के प्रयोगार्थी, आरक्षित/आपूर्ति/साह-आरक्षित/आपूर्ति को **मोग सूचना** में विवरण की थी, जिसमें आरक्षित/आपूर्ति को उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से **60 दिनों** के अंदर उक्त सूचनाओं में निम्न तालिका में वर्णित संबंधित नामों के समक्ष अधिभावना राशि का राशि पर प्रयोज्य दरों पर आकस्मिक ब्याज और भुगतान तथा/अथवा वसूलीकरण की तिथि तक उपरोक्त प्रयोज्यनुसार भागी ब्याज, आकस्मिक व्ययों, लातारों, शुल्कों, इत्यादि का प्रतिभूतान करने को कहा गया है।

क्र.सं.	ऋण सं.	ऋणकर्ता/साह-आरक्षित/गारंटर/बकाया का नाम	13(12) सूचना तिथि/बकाया देय (कु.मि.) इस तिथि को	अधिपत्य की तिथि/समय एवं प्रकार
1.	4514020007509110	1) मैसर्स व्यापार बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड , 2) श्री सुरेश कुमार (निवेशक) , 3) श्रीमती अंजू सेनी (गारंटर)	27-04-2023 ₹ 55,87,898/- (रुपये पचास लाख सातसठ हजार और सात सौ छत्तीस मात्र) 24-04-2023 के अनुसार	तिथि : 17-08-2023 समय : 12:40 बजे सांकेतिक अधिपत्य

प्रतिभूत परिसंयोजक का विवरण : संपत्ति विवरण : 1 कितला मकान, क्षेत्रफल 100 वर्ग मी, आसूत क्षेत्रफल 200 वर्ग फुट, जो खसरा सं. 926 / 734, 927 / 735, 932 / 736 पर बसा सिविल, मीना बसई, एडुकेशन नगर निगम, गुरुग्राम, चण-तहसील कांठीपुर, जन्मद पंचनाम में स्थित। **श्रीमती अंजू सेनी पत्नी श्री सुरेश कुमार के स्वाधिकारण में बना निम्नानुसार परिसंपत्ति है :-** पूर्व- रामलाल की संपत्ति, परिसर- मनीषा की संपत्ति, चण- रामलाल, पश्चिम- अन्य की संपत्ति।

कृपि: यहां इसमें उपरोक्त वर्णित ऋणकर्ता/साह-आरक्षित/गारंटर/आरक्षित/आपूर्ति निर्धारित देयराशि का प्रतिभूतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्वारा यहां इसमें उपरोक्त वर्णित ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि **जना स्पॉल फाइनंस बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी ने यहां इसमें उपरोक्त विवरणित संपत्तियों/निष्पन्न परिसंपत्तियों का, उक्त तिथिनामों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उक्त प्रयत्न अधिकारों के प्रयोगार्थी, उपरोक्त तिथियों पर, **सांकेतिक अधिपत्य** कर लिया है। यहां इसमें उपरोक्त वर्णित ऋणकर्ता/आपूर्ति/साह-आरक्षित/आपूर्ति/गारंटर/आरक्षित/आपूर्ति को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि उपरोक्त संपत्तियों/प्रतिभूत परिसंयोजक का लेन-देन न करे तथा उक्त संपत्तियों/प्रतिभूत परिसंयोजक का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, **जना स्पॉल फाइनंस बैंक लिमिटेड** के प्रभावित होना।

स्थान : दिल्ली **राज्य** **हरियाणा /—प्राधिकृत अधिकारी,**
दिनांक : 19-08-2023 **कृते जना स्पॉल फाइनंस बैंक लिमिटेड**

जना स्पॉल फाइनंस बैंक
 (एक अनुसूचित निष्काशन बैंक)
पंजीकृत कार्यालय :- ए फेवरेट, यू.एच प्रस्ताव तल, सर्वे नं 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, ऑफ वोकसुर, कोल्माला झरन रिग रोड, इंदोली बिल्डिंग्स पार्क के समीप, छल्लाघर, ईगलोर-606071, शाखा कार्यालय : 16/12, विट्ठी तल, डबल्यूई.ए, आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली-110006

PTC India Financial Services Limited
17th ANNUAL GENERAL MEETING (“AGM”) OF PTC INDIA FINANCIAL SERVICES LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS
 1. Notice is hereby given that the 17th Annual General Meeting (“AGM”) of PTC India Financial Services Limited (the “Company”) is scheduled to be held on Tuesday, the 12th September, 2023 at 11:00 A.M. through Video Conferencing (“VC”) or Other Audio Visual Means (“OAVM”), in compliance with General Circular Nos. 14/2020 dated the 8th April, 2020, 17/2020 dated the 13th April, 2020, 20/2020 dated the 5th May, 2020, 02/2021 dated the 13th January, 2021, 02/2022 dated the 05th May, 2022, and 11/2022 dated the 28th December, 2022(collectively referred to as “MCA Circulars”), SEBI circular dated the 05th January, 2023 and applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the “Act”) and the rules made there under and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 (“SEBI Listing Regulation”), to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the AGM.
 2. In Compliance with the above MCA Circulars, The electronic copies of the AGM Notice along with the Annual Report for Financial Year 2022-2023 will be sent to all the shareholders, whose email addresses are registered / available with the Company/ Depository Participants.
 3. Members who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses and mobile numbers with their respective Depositories through Depository Participants.
 4. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be made available on the Company's website at www.ptcfinancial.com/cms/showpage/page/annual-reports and also on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.
 5. Members are requested to update their KYC in their folio(s), register their email addresses, and bank account details for receipt of dividend etc. or may intimate any changes if required. The process of registering/changing the same is mentioned below:
 In case, Physical Register/update the details in prescribed Form ISR-1 and other relevant forms with Company's Share Holding Transfer Agent i.e. **KFIN TECHNOLOGIES LIMITED**, Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Senlingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, 500032. Tel: 040-67162222, Fax: 040-23001153
E-mail: einward.ris@kfintech.com, **Website:** [www.kfintech.com
 The said forms and relevant provisions of SEBI circular \(circular no. SEBI/HO/MRSD/MRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023, as amended\) are available on the Company's website at the link \[www.ptcfinancial.com\]\(http://www.ptcfinancial.com\). In the absence of any of the required documents in a folio, on or after October 1, 2023, the folio shall be frozen by the RTA. Intimation letters along with Business Reply Envelopes for furnishing the required details are being sent by the Company.
 In case, Demat Please contact your DP and register email address and bank account details in your demat account, as per the process advised by your DP.
 Members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addresses are not registered with the Company/their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest for receiving the investor communications including Annual Report 2022-23 along with AGM Notice, by following the process referred above.
 For temporary registration of email for the purpose of receiving of AGM Notice along with annual report for 2022-23, members may write to \[info@ptcfinancial.com\]\(mailto:info@ptcfinancial.com\).
 6. The remote e-voting period commences on Saturday, September 09, 2023 \(09:00 A.M.\) and ends on Monday, September 11, 2023 \(05:00 P.M.\). The members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 05, 2023 may cast their vote by remote e-voting or by e-voting at the time of AGM. Members who have not cast their votes by remote e-voting will be able to vote at AGM through e-voting.
 7. Members will have the opportunity to cast their vote electronically on the business as set out in the AGM Notice through remote e-voting or e-voting to be conducted at the AGM. For the Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories, login details for e-voting and attending AGM would be sent to their registered email addresses. Members whose credentials are not registered with the Company/ Depositories, the detailed procedure for voting and attending AGM will be provided in AGM Notice, which will also be available on Company's website \[www.ptcfinancial.com/cms/showpage/page/annual-reports\]\(http://www.ptcfinancial.com/cms/showpage/page/annual-reports\). The Members are requested to visit the Website.
 8. For individual Members holding shares in electronic form with Depositories viz. NSDL and CDSL should login through the sites of NSDL and CDSL to cast the votes during the remote e-voting period. However, for VC / OAVM meeting all the Members should login at <https://evoting.kfintech.com> to participate in the meeting and also to cast vote in case they have not voted during the remote e-voting period.
 9. The Board has recommended a final dividend of Rs. 1.00/- per equity share of Rs. 10/- each fully paid up and record date for the same is September 05, 2023.
 10. The Company has engaged the services of M/s KFin Technologies Limited \(“KFin”\) as the agency to provide the electronic voting facility and VC facility. In case any question/and/or grievance, in respect of voting by electronic means, Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions \(FAQs\) and E-voting user manual available at the download section of <http://evoting.kfintech.com/public/Faq.aspx> \(KFin Website\) or contact Mr. Raj Kumar Kale, Assitant General Manager-**IRIS** at \[raj.kumar.kale@kfintech.com\]\(mailto:raj.kumar.kale@kfintech.com\) or \[evoting@kfintech.com\]\(mailto:evoting@kfintech.com\) or call KFin's Toll Free No. 1800-309-4001 for any other further clarifications.
 11. The Notice of the 17th AGM will be sent, shortly, to the members in accordance with the applicable laws on their registered email addresses.
 By order of the Board of Directors
For PTC India Financial Services Limited
 Sd/-
Shweta Agrawal
 Company Secretary & Compliance Officer
CIN: L65999DL2006PLC153373
Regd. Office: 7th Floor, Telephone Exchange Building, B Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066
Ph: +91 11 26737300 / 26737400 Fax: 26737373 / 26737374
Website: www.ptcfinancial.com, E-mail: \[info@ptcfinancial.com\]\(mailto:info@ptcfinancial.com\)](http://www.kfintech.com)

कच्चा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
जब कि,
इंडियाबुल्स हार्जिसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922D2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनॉशियल असेट्स एंड एम्प्लॉयेड ऑफ सिक्योरिटी इंस्ट्रुमेंट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के प्रावधान प्रावधान 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंस्ट्रुमेंट (एम्प्लॉयेड) रूल्स, 2002 के साथ पहले हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **मैसर्स नारायण भंडारी प्रोप्राइटर भंडारी दूर एंड ट्रेडिंग्स और कृष्णा देवी को 28.09.2021** को सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खता नं., **HDHLJKS00487884** (बीएसएफएल का पूर्व लें का कोड **00001711**) (एपीपीएल नं. **01825946**) की राशि रु. **14,57,786.12** (रुपये **चौदह लाख सत्तावन हजार सात सौ छियासी और बारह पैसे मात्र**) और **17.05.2022** के अनुसार उस पर ब्याज उभर सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाल करते हुए अधिभावना सूचना जारी की थी।
 धराराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंस्ट्रुमेंट (एम्प्लॉयेड) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **16.08.2023** को संपत्ति पर अधिपत्य कर लिया है।
विशेषतः: कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रु. **14,57,786.12** (रुपये **चौदह लाख सत्तावन हजार सात सौ छियासी और बारह पैसे मात्र**) **17.05.2022** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हार्जिसिंग फायनान्स लिमिटेड के अधीन होगा।
 उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

नियम एवं शर्तें

- जबकि प्रतिवादियों के विरुद्ध मुकदमा दाखिल करने की तिथि से वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार लागत और शुल्क सहित प्रमाणपत्र देनदारों से 24.01.2013 से वसूली तक त्रैमासिक रेटर्स पर 14.75% प्रति वर्ष ब्याज के साथ रु. 31,21,90,995.00 रुपये (इकतीस करोड़ इक्कीस लाख नब्बे हजार नौ सौ पचासवे मात्र) की वसूली के लिए पीओसीअ अधिकाारी, ऋण वसूली अधिकारण-II द्वारा आहरित ओए संख्या 43/2013 दिनांक 07.10.2014 में वसूली प्रमाण पत्र संख्या 353/2014 तैयार किया गया था। (वसूली योग्य राशि रु. 79,43,72,125 (लाघभा) है)।
- तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त वसूली प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए एनो अनुसूचित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि स्थान आदेश को अनुपस्थित में उक्त सम्पत्ति की बिक्री ई-नीलामी द्वारा की जायेगी और यह बोली 20.09.2023 को 11.00 बजे अप. से 12.00 बजे अप. के बीच और यदि जरूरी हुआ तो 12 बजे दोपहर के उपरांत 5 मिनट के विस्तार के साथ वेबसाइट : <https://www.bankeaction.com> के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" द्वारा सम्पन्न होगी।
- यह बिक्री नीचे अनुसूची में नामित उपरोक्त सोडी की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
- संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट के अनुसार बिक्री के लिए रखा जाएगा। यदि बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि संपत्ति के एक हिस्से की बिक्री के लिए ही होती है, तो शेष के संबंध में बिक्री को तुरंत रोक दिया जाएगा। यदि नीलामी यह होने से पहले उक्त प्रमाण पत्र में उल्लिखित बकाया, ब्याज लागत (बिक्री की लागत सहित) बिक्री करने वाले अधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाता है या उसकी संतुष्टि के लिए रसूद दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी को इस तरह के प्रमाण पत्र, ब्याज और लागत की राशि का भुगतान कर दिया गया है तो बिक्री बंद कर दी जाएगी।
- ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे।
- यह बिक्री आकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्टशर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।
- संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।
- आरक्षित मूल्य जिसके नीचे सम्पत्ति सं. 1. अचल संपत्ति/भूमि का समस्त भाग, माप 0.4175 हेक्टेयर या 4175 वर्ग मीटर, मिनजुमला खसरा नंबर 8/1एम और 8/2एम, ग्राम अहमदपुर ब्राह्मण, परगना सरसावा, तहसील नकुड़, जिला सहारनपुर में में स्थित, सभी इमारतें और संरचनाएं और संचनाओं और संपत्ति से जुड़ी किसी भी चीज से स्थायी रूप से जुड़े सभी संबंध और मशीनरी, 2. 0.3581 हेक्टेयर या 3581 वर्ग मीटर की अचल संपत्ति का समस्त भाग, मिनजुमला खसरा नं. 8/1एम और 8/2एम ग्राम अहमदपुर ब्राह्मण परगना सरसावा, तहसील नकुड़, जिला सहारनपुर में स्थित, उन पर मौजूद सभी इमारतों और संरचनाओं और संपत्ति से जुड़े या स्थायी रूप से जमीन से जुड़ी किसी भी चीज से जुड़ी सभी संबंध और मशीनरी सहित, नहीं बेची जायेगी, वह आरक्षित मूल्य : रु. 3,13,00,000/- (रुपये तीन करोड़ तेरह लाख मात्र) उपरोक्त पैरा (i) में उल्लिखित सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में तथा जमा धरोहर राशि (ईएमपीडी) : रु. 31,30,000 (रुपये इकतीस लाख तीस हजार मात्र) उपरोक्त पैरा (i) में उल्लिखित सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में।
- जिन इच्छुक बोलीदाताओं ने पैना कार्ड, पहचान प्रमाण, पते के प्रमाण आदि सहित दस्तावेजों के साथ आरक्षित मूल्य से ऊपर अपनी बोलायां अधिकतम 18.09.2023 को 5.00 बजे अप. तक कार्यालय वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली में जमा करी है और 20.09.2023 को